



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण 1934 (श0)
(सं0 पटना 615) पटना, वृहस्पतिवार, 22 नवम्बर 2012

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर 2012

सं0 क0/मुक0-03/2009-562—बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम-1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) के प्रावधानों से बिहार राज्य के कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, विनियमित होते हैं ।

इन अभिकरणों के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का नियोजन एवं सेवा शर्त निर्धारण का प्राधिकार अभिकरणों के लिए गठित निदेशक पर्वद में सन्निहित है ।

गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के कर्मियों के लिए निदेशक पर्वद द्वारा अनुमोदित “बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी सेवा शर्त, अनुशासन, नियन्त्रण एवं अपील नियमावली-2010” लागू है जिसमें कर्मियों के लिए उपादान का प्रावधान नहीं है बल्कि भविष्य निधि-सह-अंशदान पेंशन योजना (सी0पी0एफ0) एवं ग्रुप बीमा के रूप में निदेशक पर्वद द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा निगम कम्पनी द्वारा ग्रुप बीमा भुगतान का प्रावधान लागू है जो अधिक लाभप्रद है ।

अतएव The Payment of Gratuity Act-1972 की धारा-5 में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार अभिकरणों को The Payment of Gratuity Act-1972 के प्रावधानों के अनुपालन से मुक्त (Exempt) किया जाता है ।

2. यह आदेश विधि विभाग के परामर्शानुसार है ।
3. इस आदेश पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 615-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>